

कोविड-19 ऑनलाइन मामले की जांच के सर्वेक्षण का प्रतिलेख

[जोश भरा संगीत]

[वर्णन] मामले की जांच कोविड-19- के प्रसार को धीमा करने का एक तरीका है

प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी उन लोगों के संपर्क में आते हैं जो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं और उनसे ऐसे अन्य लोगों को खोजने के लिए प्रश्न पूछते हैं जिन्होंने उनके करीब रहकर समय बिताया था। इन निकट संपर्कों में आने वाले लोगों को अब कोविड-19 हो सकता है और उन्हें घर पर रहना चाहिए।

आमतौर पर, मामले की जांच का इन्टरव्यू फोन पर किया जाता है। अब, आपके पास निजी, ऑनलाइन सर्वेक्षण में समान प्रश्नों का उत्तर देने का विकल्प है।

सबसे अच्छी बात क्या है? जब आपका परीक्षण किया गया था यदि तब आपने अपना सेल फ़ोन नंबर साझा किया था, तो हम आपको यह बताने के लिए संदेश भेजेंगे कि आप सर्वेक्षण कर सकते हैं!

सबसे पहले, हम आपसे संपर्क करेंगे। आप जिस भाषा में अधिक सहज महसूस करते हैं, उसके आधार पर आप 1, 2, 3, या 4 के साथ जवाब दे सकते हैं। हम आपसे एक ईमेल पता पूछेंगे और सीधे आपके इनबॉक्स में सर्वेक्षण लिंक भेज देंगे। यदि आप संदेश का जवाब नहीं देते हैं, तो आपको एक स्वास्थ्यकर्मी का फोन कॉल आएगा।

आप सर्वेक्षण भरने के लिए अपना समय ले सकते हैं। अंत में, आप दूसरों को कोविड-19 से ग्रसित करने के जोखिम को कैसे कम करें के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, और किराने का सामान और दवा जैसी चीजों के लिए ऐसे स्थानीय संसाधनों जो आपके लिए उपलब्ध हो सकते हैं उन पर विवरण प्राप्त करेंगे।

स्वास्थ्य विभाग आपकी गोपनीयता को बहुत गंभीरता से लेता है। हम आपसे कभी भी पैसे, बैंकिंग जानकारी या आपके सामाजिक सुरक्षा नंबर के बारे में नहीं पूछेंगे।

यदि आप कोविड-19 परीक्षण के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं और आपको प्रश्न हैं, तो आप एक स्वास्थ्यकर्मी से बात करने के लिए 651-201-5689 पर कॉल कर सकते हैं।

[जोश भरा संगीत]

Minnesota Department of Health
Communications Office
PO Box 64975
St. Paul, MN 55164-0975
651-201-4989
health.communications@state.mn.us
www.health.state.mn.us

1/28/21 (Hindi)

एक अलग प्रारूप में इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए, इस कॉल करें: 651-201-4989